



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1977/वैशाख 3, 1899

No. 65] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1977/VAISAKHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd April 1977

No. DRAWBACK/PN-17/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For sub-serial No. 2511 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

| Sub S. No. | Description of goods | Rate of drawback |
|---------------|----------------------------------|--|
| 2511 | <i>Polyamide filament Yarn :</i> | |
| (a) | Not above 225 deniers . . . | Rs. 3.40 (Rupees three and paise forty only) per kg. |
| (b) | Above 225 deniers . . . | Rs. 9.20 (Rupees nine and paise twenty only) per kg. |

Provided that the rate of drawback mentioned above may also apply to exports of fabrics made out of above filament yarns and exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944 without payment of excise duty on such filament yarn.

2. For sub-items (B) of item (1) of sub-serial No. 2513 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(B) *Polyamide Filament Yarn Content :*

| | |
|---|---|
| (i) Below 35 deniers | Rs. 62.20 (Rupees sixty two and paise twenty only) per kg. |
| (ii) 35 deniers and above but less than 80 deniers | Rs. 55.20 (Rupees fifty five and paise twenty only) per kg. |
| (iii) 80 deniers and above but less than 110 deniers. | Rs. 48.20 (Rupees forty eight and paise twenty only) per kg. |
| (iv) 110 deniers and above but less than 150 deniers. | Rs. 41.20 (Rupees forty one and paise twenty only) per kg. |
| (v) 150 deniers and above but not above 225 deniers. | Rs. 23.00 (Rupees twenty three only) per kg. |
| (vi) Above 225 deniers but not above 750 deniers. | Rs. 28.80 (Rupees twenty eight and paise eighty only) per kg. |
| (vii) Above 750 deniers | Rs. 15.70 (Rupees fifteen and paise seventy only) per kg. |

The existing provisos under sub-serial No. 2513 shall continue.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1977

सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-17/77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52, फा० सं० 602/2/70 प्र० आ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2511 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिश्व पित किया जायगा अर्थात् :—

| उपक्रमांक | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर |
|-----------|----------------------------------|--|
| 2511 | पोलिएमाइड फिलामेंट धागा : | |
| (क) | 225 डेनियर से अनधिक | 3.40 रु० (केवल तीन रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (ख) | 225 डेनियर से अधिक | 9.20 रु० (केवल नौ रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |

परन्तु यह तब जबकि प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर ऊपर बताये गये फिलामेंट धागे से निर्मित वस्त्र के निर्यात पर भी तथा इस प्रकार के फिलामेंट धागे पर उत्पादन शुल्क को अदायगी किये बिना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बंध-पत्र के अधीन किये गये निर्यात पर भी लागू हो।

2. उपक्रमांक 2513 की मद (i) की उप मद (ख) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिये निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्.—

(ख) पोलिएमाइड फिलामेंट बागा अन्तर्वस्तु

| | |
|---|--|
| (i) 35 डेनियर से कम | 62.20 रु० (केवल बासठ रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (ii) 35 डेनियर तथा उस से ऊपर, किन्तु 80 डेनियर से कम | 55.20 रु० (केवल पचपन रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (iii) 80 डेनियर तथा उस से ऊपर किन्तु 110 डेनियर से कम | 48.20 (केवल अड़तालीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (iv) 110 डेनियर तथा उस से ऊपर किन्तु 150 डेनियर से कम | 41.20 रु० (केवल इकतालीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (v) 150 डेनियर तथा उससे अधिक किन्तु 225 डेनियर, से अनधिक | 23.00 रु० (केवल तेईस रुपये) प्रति कि० ग्रा० । |
| (vi) 225 डेनियर से ऊपर, किन्तु 750 डेनियर से अनधिक | 28.80 रु० (केवल अठ्ठाईस रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |
| (vii) 750 डेनियर से ऊपर | 15.70 रु० (केवल पन्द्रह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० । |

उपक्रमांक 2513 के अन्तर्गत विद्यमान परन्तुक लागू रहेंगे।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

